

Written by Atul Pandey
Thursday, 18 February 2016 22:42

□□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□

कुमार सौवीर

लीजिये यह रसीला कसिसा शुरू से सुन लीजिये, जिसकी शुरुआत तो दुःखदायी हादसे से था लेकिन सभी यात्रियों ने उसे सुखान्त बना दिया।

जरूरत पड़ी सरिफ़ कपहल-कदमी की, जो मैंने कर डाला।

भोपाल से मेरी ट्रेन कुशीनगर 3 बजे छूटी। रजिस्ट्रेशन तो था नहीं, लेकिन मैं और बलियाटकिडेल्ली वाले जनार्दन यादव ने सामान्य टिकट लिया और हम सब स्लीपर डब्बे में घुस गए। जनार्दन तो चक्कन-चुपपण है, लेकिन मेरी सड़क उगती दाढ़ी का सम्मान देते हुए सहयात्रियों ने सरकते हुए हमें बैठने की जगह दे दी। बीना स्टेशन पर एक महिला का वलाप पूरे डब्बे को कंबा गया।

पता चला कि नेपाल की यह महिला अपने 7 साल के बच्चे को इलाज कराने बम्बई आई थी। बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है। पतबम्बई में ही है। इलाज के बाद वह तत्काल टिकट लेकर अपने बच्चे समेत डब्बे पर सीट पर आई। अचानक भोपाल के बाद वदिशा या बीना में कोई उचक्कन वह बैग लेकर भाग गया जिसमें उसका सारा रूपया-पैसा और बच्चे की दवाई आदिरखा था।

कुछ देर तक तो डब्बे में भगादौड़ी शुरू हुई। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। महिला के आंसू अभी भी हचिकियों से लपिटे थे। आखिर वह क्या करती।

उसके पास अब चाय पीने तक का पैसा नहीं था, और सड़क रकम से कम 14 घंटे का था। उसके बाद गोरखपुर से सुनौली और फिर नेपाल उसका गाँव।

मैंने पैसला किया। पूरा भरा डब्बा बेबस था, इसी बीच मैंने अपनी जेब से कुछ नोट निकले जनार्दन को तेरे आवा में कहा:- चलो भइया यादव जी, कुछ पुनः कमा लो। निकलो कुछ रूपया। इस बहन की मदद करनी है। उसकी मदद करो और अपना जन्म सफल करो।

जनार्दन शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने बालसुलभ ठहाकेके साथ जनार्दन ने अपने कोट में की जेब में हाथ डाल कर कुछ रकम निकली।

और उसके बाद मैंने आसपास बैठे यात्रियों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। ज्यादातर ने मेरे हाथ पर कुछ न कुछ रखा जरूर। किसी ने अचक्का कर तो किसी ने मुक्ताहस्त।

अरे कुछ ही देर में अच्छी-खासी रकम जुट गयी।

मैंने सारी रकम महिला की ओर बढ़ाई तो वो फिर फूटफूट कर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि, "तुम इस डब्बे की बहन हो और यह हम सब यात्रियों का रू है। इसलिये उसे बुल करो।"

दोस्तों! इसीलिए मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि जिंदगी में पहलकदमी बहुत जरूरी होती है।

(मेरी सार्वजनिक भखिमंगई का यह नजारा जनार्दन ने चुपकेसे कैद कर लिया। इस फोटो को देख कर आपके यकीन हो जायेगा कि भीख माँगते हुए भी कुमार सौवीर खासे स्मार्ट दीखते हैं।)